

# राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियाँ

## केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान को राजभाषा गौरव पुरस्कार

संस्थान के डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक और डॉ. इमेल्डा जोसफ, प्रधान वैज्ञानिक को संस्थान की

अर्धवार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका 'मत्स्यगंधा' में प्रकाशित 'मछुआरों की आय बढ़ायी जाने के लिए समुद्री संवर्धन प्रौद्योगिकियाँ' विषयक लेख के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिंदीतर भाषी क्षेत्र की श्रेणी में 'राजभाषा गौरव पुरस्कार वर्ष 2017-18' प्राप्त



डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक, सी एम एफ आर आइ राजभाषा कीर्ति पुरस्कार स्वीकार करते हुए



डॉ. इमेल्डा जोसफ, प्रधान वैज्ञानिक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार स्वीकार करती हुई

हुआ। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 14 सितंबर, 2018 को आयोजित गरिमामय हिन्दी दिवस समारोह में भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री वेंकय्या नायडु ने पुरस्कार प्रदान किया। श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, गृह राज्य मंत्री और श्री किरण रिजीजू, गृह राज्य मंत्री भी इस मौके पर उपस्थित थे।

## भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ को राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार

भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ को वर्ष 2015-16 के दौरान 'ग' क्षेत्र में स्थित संस्थानों में राजभाषा की गतिविधियों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 8

वीं बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ। एन ए एस सी परिसर, नई दिल्ली में दिनांक 16 जुलाई, 2018 को आयोजित भा कृ अनु प के 90 वीं वर्षगांठ में डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक और श्री नवीन कुमार यादव, सहायक निदेशक (रा भा) ने श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया। श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री परषोत्तम रूपाला, माननीय केन्द्रीय राज्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महा निदेशक, और श्री छाबिलेंद्र राउल, सचिव, भा कृ अनु प भी इस अवसर पर उपस्थित थे।



डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक, सी एम एफ आर आइ और श्री नवीन कुमार यादव, सहा. निदेशक (रा भा) राजर्षि टंडन पुरस्कार स्वीकार करते हुए

## हिन्दी दिवस / पखवाड़ा समारोह 2018 की रिपोर्ट

भा कृ अनु प – केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से दिनांक 14 सितंबर, 2018 को हिन्दी दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में हिन्दी समारोह पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और माननीय कृषि एवं किसान

सहकारिता मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी के संदेशों की प्रतियाँ सभी कर्मचारियों के बीच परिचालित की गयीं।

संस्थान के सभी क्षेत्रीय / अनुसंधान केन्द्रों में विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के साथ हिन्दी सप्ताह / पखवाड़ा का आयोजन किया गया:

सी एम एफ आर आइ मंडपम क्षेत्रीय केन्द्र में दिनांक 24 सितंबर, 2018 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिन्दी लिप्यंतरण, अनुवाद, निबंध लेखन, टिप्पण व आलेखन,



मंडपम क्षेत्रीय केन्द्र में हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन



पुरस्कार वितरण



मद्रास अनुसंधान केन्द्र में हिन्दी सप्ताह समारोह

तकनीकी शब्दावली के साथ हिन्दी सप्ताह मनाया गया। सुश्री एस. सुमती, प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय, मंडपम ने दिनांक 14 सितंबर 2018 को दीप प्रज्वलित करके हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉ. मुरली, सहायक प्रोफसर, हिन्दी विभाग, मदुरै कॉलेज, मदुरै मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कर्मचारियों को यह आह्वान दिया कि राजभाषा

के कार्यान्वयन के साथ-साथ मातृभाषा का प्रचार करना भी आवश्यक है। मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं, विभागीय हिन्दी परीक्षाओं में पास होने वाले कार्मिकों और हिन्दी में मूल काम करने वाले कार्मिकों को नकद पुरस्कार प्रदान किए।



वेरावल क्षेत्रीय केन्द्र में हिन्दी सप्ताह प्रतियोगिता का दृश्य.

## हिन्दी कार्यशाला

सी एम एफ आर आइ मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 17 दिसंबर, 2018 को 'बोलचाल

की हिन्दी' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी. श्रीमती एस. जानकी, उप प्रबन्धक (हिन्दी) इन्डियन रेयर एर्थ लिमिटेड, कलमशेरी ने कार्यशाला में व्याख्यान दिया।



हिन्दी कार्यशाला का दृश्य

## संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने 08 सितंबर, 2018 को भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ के विशाखपट्टणम क्षेत्रीय केन्द्र में राजभाषा कार्यविधियों का निरीक्षण किया। डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, सांसद एवं संयोजक ने बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. सुनील गायकवाड़, सांसद, श्री प्रदीप टमटा, सांसद, (राज्यसभा), श्री सुशील गुप्ता, सांसद, (राज्यसभा), डॉ. सत्येन्द्र, वरिष्ठ

अनुसंधान अधिकारी, समिति सचिवालय, श्री विकास वर्मा, हिन्दी अधिकारी, श्री अब्दुल मोहीब, सहायक और श्री विनय कुमार, आशुलिपिक भी बैठक में उपस्थित थे।

भा कृ अनु प से श्रीमती सीमा चोपड़ा, निदेशक (राजभाषा), डॉ. प्रेम कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, भा कृ अनु प, नई दिल्ली और श्री मनोज कुमार, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी (राजभाषा), संस्थान के प्रतिनिधियों के रूप में डॉ. ए. गोपालकृष्णन, निदेशक,



संसदीय राजभाषा समिति बैठक का दृश्य



सांसद और अधिकारी गण

श्री मुरलीधरन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्री नवीन कुमार यादव, सहायक निदेशक, श्रीमती ई. के. उमा, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी (हिन्दी), डॉ. शुभदीप घोष, प्रभारी वैज्ञानिक, विशाखपट्टणम क्षेत्रीय केन्द्र और डॉ. इंदिरा दिविपाला, वैज्ञानिक भी निरीक्षण बैठक में उपस्थित थे।

निरीक्षण बैठक के दौरान समिति ने राजभाषा के प्रचार में संस्थान द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की सराहना की। इस दौरान हिन्दी पुस्तकों, प्रकाशनों और पुरस्कारों का प्रदर्शन किया गया।